IE307

Roll No.:....

APPLIED INSTRUMENTATION

निर्धारित समय : तीन घंटे।

अधिकतम अंक : 70

Time allowed: Three Hours]

[Maximum Marks: 70

नोट :

(i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं **पाँच** के उत्तर दीजिये।

Note: Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

- (ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये। Solve all parts of a question consecutively together.
- (iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये। Start each question on fresh page.
- (iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है। Only English version is valid in case of difference in both the languages.
- 1. निम्न को संक्षेप में समझाइये :

Explain the following in brief:

- (i) ग्लास फोर्मिंग प्रक्रम Glass forming process.
- (ii) रासायनिक रियक्टर तापीय नियंत्रण में समय पश्चता
 Time lags in temperature control of chemical reactor.
- (iii) शुष्कक का शुष्कन कर्व Drying curve of a dryer
- (iv) ताप विनिमयक वैरीएबल्स Heat exchanger variables
- (v) क्वथनांक बढ़ना Boiling point rise

 (2×5)

(1 of 2)

P.T.O.

IE30)7	(2 of 2)	
2.	स्टील ब	बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए।	
	Expla	in the steel making process with neat and clean sketch.	(12)
3.		यर शक्ति संयंत्र से विद्युत उत्पादन को सचित्र समझाइये ।	
	Explain the electricity generation by nuclear power plant with neat sketch.		
4.	(i)	रासायनिक रियक्टर में कैसकेड ताप नियंत्रण को पुनःचक्रण सहित समझाइये ।	
		Explain Cascade temperature control of chemical reactor with recirculatio रासायनिक रियक्टर में निरंतर दाब नियंत्रण सचित्र समझाइये।	on.
		Explain continuous pressure control of chemical reactor with neat sketch	(6+6)
5.	निम्नां	केत शुष्कक को स्वच्छ आरेख बनाकर समझाइये :	
	Expla	ain the following dryers with neat sketch : स्प्रे निरंतर शुष्कक	
	(ii)	Spray continuous dryer निर्वात ब्लैण्डर बैच शुष्कक	
			1616
		Vacuum blender batch dryer	(6+6)
6.	भाप त Expl	नापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये। ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex	
	Expl	नापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये।	changer.
6.7.	Expl Firming Expl	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये। ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex कित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये: lain the working of following evaporator with neat sketch:	schanger. (12)
	Expl निम्नां Expl (i)	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये। ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex कित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये: lain the working of following evaporator with neat sketch: लम्बी नली ऊर्ध्वाधर वाष्पित्र Long tube vertical evaporator	schanger. (12)
	Expl Firming Expl	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये। ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex कित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये: lain the working of following evaporator with neat sketch: लम्बी नली ऊर्ध्वाधर वाष्पित्र	cchanger. (12)
7.	Expl Firming Expl (i) (ii)	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये। ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex कित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये: lain the working of following evaporator with neat sketch: लम्बी नली ऊर्ध्वाधर वाष्पित्र Long tube vertical evaporator बलात चक्रीय वाष्पित्र Forced circulation evaporator	(6+6)
	Expl First Expl (i) (ii)	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये। ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex कित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये: lain the working of following evaporator with neat sketch: लम्बी नली ऊर्ध्वाधर वाष्पित्र Long tube vertical evaporator बलात चक्रीय वाष्पित्र Forced circulation evaporator लिखित किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: te short notes any two of the following:	(6+6)
7.	Expl farai Expl (i) (ii)	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये। ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex कित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये: lain the working of following evaporator with neat sketch: लम्बी नली ऊर्घ्वाधर वाष्पित्र Long tube vertical evaporator बलात चक्रीय वाष्पित्र Forced circulation evaporator लिखित किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: ite short notes any two of the following:	(6+6)
7.	Expl First Expl (i) (ii)	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये। ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex कित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये: lain the working of following evaporator with neat sketch: लम्बी नली ऊर्ध्वाधर वाष्पित्र Long tube vertical evaporator बलात चक्रीय वाष्पित्र Forced circulation evaporator लिखित किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: te short notes any two of the following:	(6+6)
7.	Expl farai Expl (i) (ii)	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये। ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex कित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये: lain the working of following evaporator with neat sketch: लम्बी नली ऊर्घ्वाधर वाष्पित्र Long tube vertical evaporator बलात चक्रीय वाष्पित्र Forced circulation evaporator लिखित किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: ite short notes any two of the following: बैच फ्ल्यूड बैड शुष्कक Batch fluid bed dryer	(6+6)
7.	Expl Fire (i) (ii) Fire Wri (i) (ii)	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये । ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex कित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये : lain the working of following evaporator with neat sketch : लम्बी नली ऊर्घ्वाधर वाष्पित्र Long tube vertical evaporator बलात चक्रीय वाष्पित्र Forced circulation evaporator लिखित किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : tte short notes any two of the following : बैच फ्ल्यूड बैड शुष्कक Batch fluid bed dryer द्रविणत्र का ताप नियंत्रण Temperature control of condenser तापीय विद्यत संयंत्र	(6+6)
7.	Expl farati Expl (i) (ii) farati Wri (i)	तापी विनिमयक की ताप नियंत्रण की पम्पिंग ट्रैप विधि को सचित्र समझाइये । ain pumping trap method for controlling temperature of a steam heater ex िक्तित वाष्पित्रों की कार्यविधि चित्र बनाकर समझाइये : lain the working of following evaporator with neat sketch : लम्बी नली ऊर्ध्वाधर वाष्पित्र Long tube vertical evaporator बलात चक्रीय वाष्पित्र Forced circulation evaporator लिखित किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : tte short notes any two of the following : बैच फ्ल्यूड बैड शुष्कक Batch fluid bed dryer द्रवणित्र का ताप नियंत्रण Temperature control of condenser	(6+6)